



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 6--12, 2003 (भाद्रपद 15, 1925)  
No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 6--12, 2003 (BHADRA 15, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2 [PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अप्पॉइंटमेंटों, प्रमोशनलियों, लूटियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 2003

सं० आर० एस०/6(iv)/2003/27-कामिक—श्री राजीव लोचन को राज्य सभा में याचिका समिति के अध्यक्ष के वैयक्तिक स्टाफ में 26 जून, 2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक राज्य सभा सचिवालय में 10000-325-15200 रुपये के वेतनमान में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में स्थापनापन्न रूप से कार्य करने के लिए अस्थाई रूप से नियुक्त किया गया है।

2. श्री राजीव लोचन की नियुक्ति राज्य सभा में याचिका समिति के वर्तमान अध्यक्ष के विवेकाधीन है उनके कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगी।

प्र० रं० गुहाराय, उप सचिव

सं० आर० एस०/6(V)/2003/28-कामिक—श्री परितोष भट्टाचार्य को राज्य सभा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचिव के वैयक्तिक स्टाफ में 1 जुलाई, 2003 के पूर्वाह्न से

आगामी आदेशों तक राज्य सभा सचिवालय में 8,000-275-13,500 रुपये के वेतनमान में निजी सचिव के रूप में स्थापनापन्न रूप से कार्य करने के लिए अस्थाई रूप से नियुक्त किया गया है।

2. श्री परितोष भट्टाचार्य की नियुक्ति राज्य सभा में भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मुख्य सचिव के विवेकाधीन है उनके कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगी।

प्र० रं० गुहाराय, उप सचिव

सं० आर० एस०/3(IX)/2003/29-कामिक—इस सचिवालय के दिनांक 19 फरवरी, 2003 की अधिसूचना सं० आर० एस०/3(IX)/2003/4-कामिक के क्रम में राज्य सभा के सभापति ने इस सचिवालय में मुद्रण और प्रकाशन नियंत्रक श्री सुरिन्दर कुमार वर्मा की प्रतिनियुक्ति की अवधि को 20 अगस्त, 2003 के अपराह्न से छह महीने की अवधि के लिए बढ़ाने की कृपा की है।

प्र० रं० गुहाराय, उप सचिव

## मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 अगस्त, 2003

सं० ए-19012/2/2002-प्रशा०-1—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11 अगस्त, 2003 के आदेश सं 10/15/2003-ईओ (ए० एम० I) द्वारा युवक कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर अपनी नियुक्ति के परिणामस्वरूप, श्रीमती वी० के० जेना, भा० प्र० से० (उड़ीसा-79) संयुक्त सचिव, जो 11 जुलाई, 2003 से मंत्रिमंडल सचिवालय में अनिवार्य तैनाती प्रतीक्षा पर थीं, ने 13 अगस्त, 2003 के पूर्वाह्न से संयुक्त सचिव का पदभार छोड़ दिया।

सुनील मिश्र, उप सचिव,

दिनांक 19 अगस्त 2003

सं० ए-19014/4/2003—प्रशा०-I—राष्ट्रपति, श्रीमती ए० धनलक्ष्मी, के० सं० से० को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I में पूर्णतया तदर्थ आधार पर पदोन्नति होने पर, 18 अगस्त, 2003 के पूर्वाह्न से सात वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक मंत्रिमंडल सचिवालय में अवर सचिव नियुक्त करते हैं।

सुनील मिश्र, उप सचिव

## भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 21 अगस्त 2003

सं० पि० आर० एन० एस० ए०/01(01)/2003—प्रशा०—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5-8-2003 के कार्यालय ज्ञापन सं० 31/10/2003-ई० ओ० (एम० एम० I) के अनुसरण में राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 अधिकारी श्री एम० राय को भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय में स्थानांतरण के आधार पर अवर सचिव के पद पर दिनांक 19-08-2003 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं।

एस० के० सिक्का, वैज्ञानिक सचिव

## अन्तरिक्ष विभाग

बेंगलूर-560094, दिनांक 18 अगस्त 2003

सं० 12/2/1/2003-I—अन्तरिक्ष विभाग के श्री के० आर० विष्णु, अनुभाग अधिकारी ने स्वैच्छिक रूप से निवृत्ति स्वीकार होने के परिणामस्वरूप दिनांक माच 3, 2003 के पूर्वाह्न से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 12/2/7/2003-I—अन्तरिक्ष विभाग की श्रीमती जयश्री कृष्ण, उप सचिव ने स्वैच्छिक रूप से निवृत्ति स्वीकार होने के परिणामस्वरूप दिनांक 6 अगस्त, 2003 के पूर्वाह्न से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

## योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 4 अगस्त 2003

सं० ए-11013/57/2003-प्रशा० II—राष्ट्रपति, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के गेड “डी” आशुलिपिक श्री सुरेन्द्र पाल की, जो इस समय योजना, सख्यकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्यमंत्री (श्री एस० बी० मुखर्जी) के निजी स्टाफ में प्रथम निजी सहायक के पद पर कार्यरत हैं; सह सत्रवसानी नियुक्ति को दिनांक 4-8-2003 की पूर्वाह्न से समाप्त करते हैं।

श्री सुरेन्द्र पाल को तत्काल प्रभाव से अवर सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को रिपोर्ट करने हेतु निदेश दिया जाता है।

एस० ए० रहीम, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 13 अगस्त 2003

सं० ए-12025/03/2001-प्रशा० II—राष्ट्रपति सुश्री रहो सिद्दिकी को योजना आयोग में, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (समाजशास्त्र/सामाजिक आयोजना) के पद पर 10,000-325-15200 रु० के वेतनमान में, नियमित पदोन्नति के आधार पर अस्थायी क्षमता में दिनांक 11-08-2003 की पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

के० के० छावड़ा, अवर सचिव

## विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 2003

सं० ए-12025(I)/2/2002-प्रशा०-I (वि० वि०)—राष्ट्रपति जी, संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर, श्रीमती सुधा रानी रेलंगी को, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में रु० 10,000-325-15,200 के वेतनमान में दिनांक 13 अगस्त 2003 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक सहायक विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड IV) के पद पर कार्य करने हेतु सहर्ष नियुक्ति करते हैं।

श्रीमती सुधा रानी रेलंगी 13 अगस्त 2003 से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगी।

एम० दास, उप सचिव

## विधि साहित्य प्रकाशन

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 2003

फा० सं० 12025/1/2003-वि० प्र० (प्र०)—राष्ट्रपति, विधायी विभाग के विधि साहित्य प्रकाशन की तारीख 30 अक्टूबर 2003 की समसंख्यांक अधिसूचना के अनुक्रम में उक्त विभाग के विधि साहित्य प्रकाशन में श्री एच० एस० द्विवेदी की मृत्यु के रूप में तदर्थ नियुक्ति की अवधि की तारीख 28 जुलाई, 2003 के पूर्वाह्न से 31 जुलाई, 2003 (अपराह्न)

तक बार दिन की अवधि के लिए या पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, विस्तारित करते हैं।

2. उपरोक्त नियुक्ति की समाप्ति पर श्री एच० एस० द्विवेदी अधिवाषिता की आयु प्राप्त कर लेने पर अर्थात् 31 जुलाई, 2003 के अदराल में सरकारी सेवा से निवृत्त हो जाएंगे।

सुरेन्द्र कुमार, अवर सचिव

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 11 अगस्त 2303

सं० के० 11017/2/2003-यू० एस०-II—भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करने के पश्चात्, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायविद् श्री भवानी सिंह को गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करते हैं और उन्हें 26 अगस्त, 2003 को या उससे पहले गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण करने का निर्देश देते हैं।

दुर्गादास गुप्ता, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 2003

सं० ए-32014/07/2002-प्रशा० I—राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ प्रधान निजी सचिवों की तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 31-12-2003 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित वरिष्ठ प्रधान निजी सचिवों के उपलब्ध होने तक, अथवा अगले आदेशों के होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए निरंतर करते हैं। वरिष्ठ प्रधान निजी सचिवों के पद पूर्ण रूपेण तदर्थ प्रवृत्ति के हैं इसलिए उनको इन पदों पर अनिश्चित काल तक निरंतर बने रहने हेतु अथवा केन्द्रीय सचिवालय आणुलिपिक सेवा के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ग्रेड में वरिष्ठता के लिए कोई दावा पेश करने का अधिकार नहीं प्रदान करते हैं :-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)
1.	के० के० उपाध्याय
2.	के० एल० बजाज
3.	ब्रज मोहन
4.	पी० ताहिलियानी

एस० के० भटनागर, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 2003

सं० I-18012/5/2003-आई पी एस-I—राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिबीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय पुलिस सेवा के जम्मू एवं कश्मीर संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को, उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीखों से, भारतीय पुलिस सेवा में स्थाई करते हैं :-

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	भारतीय पुलिस सेवा में स्थायीकरण की तारीख
(सर्वश्री)		
1.	वशीर अहमद डार	21-06-2001
2.	विजय कुमार घई	09-03-2002
3.	अजीत सिंह	09-03-2002
4.	हीरालाल फोतेदार	09-03-2002
5.	गुलजार सिंह	09-03-2002
6.	अब्दुल सुभान लोन	09-03-2002
7.	सुलैमान सलारिया	09-03-2002
8.	सुनील कुमार शर्मा	09-03-2002
9.	मुनीर अहमद खान	09-03-2002
10.	श्रीमती मंजू राशीद	09-03-2002
11.	सैय्यद अहमद सैय्यद	09-03-2002

एस० पी० वर्मा, अवर सचिव

दिनांक 21 अगस्त 2003

सं० I-18012/6/2001-आई०पी०एस०-I—राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिबीक्षा) नियम 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश संवर्ग के भारतीय पुलिस अधिकारी श्री आर० पी० सिंह को दिनांक 26-2-1994 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं।

एस० पी० वर्मा, अवर सचिव

दिनांक 22 अगस्त, 2003

सं० I-18012/9/2000-आई० पी० एस०-I—राष्ट्रपति भारतीय पुलिस सेवा (परिबीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के पंजाब संवर्ग के श्री देवेन्द्र सिंह को दिनांक 9-2-2000 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं।

एस० पी० वर्मा, अवर सचिव

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 अगस्त 2003

सं० ए-20/जी/977-प्रशा० I—राष्ट्रपति, श्रीमती गंगा मूर्ति, भा०आ०से० (78) की पेंशन तथा पेंशनभोगी-कल्याण-विभाग में निदेशक के रूप में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की कार्यावधि को 19-08-2003 से आगे अर्थात् 19-09-2003 तक एक मास की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक बढ़ाते हैं।

वी० के० वेलुकुट्टी, अवर सचिव

सं०-ए32013/9/2003-प्रशासन-I—राष्ट्रपति, श्री चम्पक चटर्जी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (प०ब० : 71) को अगस्त 13, 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में स्थापना अधिकारी एवं अपर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी० के० वेलुकुट्टी, अवर सचिव

नई दिल्ली-110067 दिनांक 21 अगस्त 2003

सं० 13016/6/2002-प्रशि० I—राष्ट्रपति, श्री मुकेश चतुर्वेदी, उप निदेशक (आर०सी०पी०), पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय को 1 अगस्त 2003 की पूर्वाह्न से 5 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति के आधार पर उप निदेशक (सतर्कता पाठ्यक्रम) के रूप में नियुक्त करते हैं।

मनीषा भटनागर, डेस्क अधिकारी

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 अगस्त 2003

सं० 69 (फा० सं० ए०-19013/16/2003-प्रशासन-1)—भारत के राष्ट्रपति, श्री प्रमोद कुमार राय, भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा को 4-8-2003 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए तथा अगले आदेशों तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग में अवर सचिव नियुक्त करते हैं। इन्हें अवर सचिव (तत्कालीन निरोधक) के रूप में तैनात किया जाता है।

प्रीति पंत, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 अगस्त 2003

सं० ए-12011/15/01-प्रशा० 1/2002—राष्ट्रपति, इस विभाग के दिनांक 11 फरवरी 2003 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में भारत सरकार मुख्यालय (पी०एल० यूनिट), फरीदाबाद के टेक्नोलॉजिस्ट श्री तपन कुमार मन्ना को इस

विभाग के बजट प्रेस में 10,000-15,200/- रु० के वेतनमान में प्रबंधक (प्रेस) के रूप में तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 5-8-2003 (पूर्वाह्न) से आगे 6 माह की अवधि के लिए अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

ईश्वर चन्द काम्बोज, अवर सचिव

(वैकिंग प्रभाग)

(ऋण वसूली अधिकरण)

विशाखापट्टनम, दिनांक 6 जून 2003

मि० सं० : डि०आर०टी०/प्रशासन/8/03-04—पीठासीन अधिकारी एवं विभाग अध्यक्ष, श्री सि० मोहन दास [सहायक, केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग, मुख्य अभियंता (द०अ०-2) का कार्यालय, हैदराबाद] को ऋण वसूली अधिकरण, विशाखापट्टणम के कार्यालय में रु० 6,500-10,500 के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर 26-5-2003 से एक वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति करते हैं।

एस० एस० एस० सहायक रजिस्ट्रार  
एवं कार्यालय के अध्यक्ष

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 2003

सं० पी एफ जी (396)/80-प्रशा०-II—भारतीय कंपनी विधि सेवा के वरिष्ठ समयमान (लेखा शाखा) अधिकारी श्री आर० एल० सारस्वत ने अपना स्थानान्तरण होने पर 10-7-2003 के पूर्वाह्न से कम्पनी रजिस्ट्रार कोलकाता के कार्यालय से उप कंपनी रजिस्ट्रार के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

2. केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 448 की उपधारा (1) (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय कम्पनी विधि सेवा के वरिष्ठ समयमान (लेखा शाखा) अधिकारी श्री आर० एल० सारस्वत को शासकीय समापक, उच्च न्यायालय, दिल्ली के कार्यालय में 21-7-2003 के पूर्वाह्न से अगला आदेश होने तक, उप शासकीय समापक के रूप में नियुक्त किया है।

रवीन्द्र दत्त, अवर सचिव

सं० पी एफ जी (538)/96-प्रशा०-II—भारतीय कंपनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान (लेखा शाखा) अधिकारी श्री एस० चन्द्रशेखरन का स्थानान्तरण होने पर उन्होंने 11-7-2003 के अपराह्न से क्षेत्रीय निदेशक चेन्नई के कार्यालय में सहायक निदेशक (निरीक्षण) के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

2. कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 609 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए केन्द्र सरकार ने भारतीय कम्पनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान (लेखा शाखा) अधिकारी श्री एस० चन्द्रशेखरन को 14-7-2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, कम्पनी रजिस्ट्रार कोयम्बतूर के कार्यालय में सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है।

रवीन्द्र दत्त, अवर सचिव

बाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(बाणिज्य विभाग)

(पूर्ति प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 2003

सं० ए-35020/1/2002-स्था० I(संवर्ग)—राष्ट्रपति, श्री एम०के० आनन्द, आई०सी०ओ०ए०एस० (89) द्वारा धारित उपसचिव के पद को, 13 अगस्त, 2003 (पूर्वाह्न) से उनकी पदावधि की शेष अवधि के लिए जो 8 सितंबर 2004 तक होगी अथवा अगले आदेश होने तक, जो कोई भी पहले हो, उनके लिए एक व्यक्तिगत उपाय के रूप में, निदेशक पद से पुनर्नीमित करते हैं।

एस० दास, अवर सचिव

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 अगस्त 2003

सं० 8/52/2001-पी पी एण्ड सी—राष्ट्रपति केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्) के वैज्ञानिक ई-II डा० एस०एन० मंती को दिनांक 29 जुलाई, 2003 की पूर्वाह्न से 5 वर्षों की अवधि के लिए, अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो बाणिज्य और औद्योगिक मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) के तहत प्रतिनियुक्ति आधार पर महानियंत्रक पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न के रूप में नियुक्त करते हैं।

वाई०पी० वशिष्ठ, अवर सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 2003

सं० 5(7)/2002-स्थापना—इस्पात मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में अनुभाग अधिकारी श्री के० एम० मोहिनुद्दीन वित्तीय नियम 56 ट(1) के अंतर्गत दिनांक 21-07-2003 (पूर्वाह्न) से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

टी०बी०ए० राम, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 13 अगस्त 2003

सं० 5(4)/2000-स्थापना—दिनांक 12-2-2001 की इस्पात मंत्रालय की अधिसूचना सं० 2(5)/2000-स्थापना के क्रम में राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय [संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) और सी० ए० ओ० कार्यालय] के संयुक्त निदेशक, श्री के० एन० मिश्रा, जो इस समय इस्पात राज्य मंत्री के निजी स्टाफ में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्त पर हैं, के कार्य-काल को दिनांक 2-6-2003 से 2-6-2004 तक या मंत्री जी द्वारा उनकी सेवाओं की आवश्यकता होने तक या मंत्री जी द्वारा इस्पात राज्य मंत्री बने रहने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाते हैं।

बाबू राम, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 अगस्त 2003

सं० ए० 12011/10/2003-प्रशा०—राष्ट्रपति, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की नियमित वैयक्तिक सहायक श्रीमती कुसुम अग्रवाल को 1-8-2003 से छः महीने की अवधि अथवा नियमित पदधारी के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, पूर्णतः तदर्थ आधार पर आशुलिपिक ग्रेड “क और ख” (विलयित) पर नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से श्रीमती कुसुम अग्रवाल को आशुलिपिक ग्रेड “क और ख” (विलयित) ग्रेड में नियमित नियुक्ति, बरिष्ठता के लिए दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

एस० के० नायक, अवर सचिव

सं० ए-12011/15/98-प्रशा०—राष्ट्रपति, श्रीमती प्रिया

अजीत सिंह भा० प्र० सेवा (हि० प्र० : एस० सी० एस० : 94) को 11 अगस्त, 2003 के पूर्वाह्न से 4 साल की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो उपभोक्ता मामले में 12000-375-16500 रु० के वेतनमान में उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस० के० नायक, अवर सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 19 अगस्त 2003

सं० ए-32013/2/2002-एनटीएच(प्रशासन)—राष्ट्रपति, श्री जी० सी० चट्टोपाध्याय, वैज्ञानिक अधिकारी (एन डी टी) को 11-2-2003 के पूर्वाह्न से प्रोन्नति के आधार पर 8000-275-13500 रु० के वेतनमान में राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता में वैज्ञानिक एस बी (एन डी टी) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. वे दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

हरजिंदर सिंह मल्ही, अवर सचिव,

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 अगस्त 2003

सं० ए०-12025/15/2001-सी० एच० एस०-IV—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० अजय सारस्वत को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उपसर्वर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड-II के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करके उन्हें 22-4-2002 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक 10,000-15,200 रुपये के वेतनमान में सफदर-जंग अस्पताल, नई दिल्ली में कार्डियो थोरेटिक वास्कुलर सर्जन के रूप में तैनात करते हैं।

यू० सी० नांगिया, उप सचिव

दिनांक 18 अगस्त 2003

[सं० ए०-12025/6/2002-सी० एच० एस०-III—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० लतीका साहू को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उपसर्वर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड-2 परीक्षा पर नियुक्त करके उन्हें 18-6-2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक प्रसूति एवं स्त्रीरोग विज्ञान के सहायक प्रोफेसर के रूप में ज़िपमेर, पांडिचेरी में तैनात करते हैं।

यू० सी० नांगिया, उप सचिव

सं० ए०-12025/33/2002-सी० एच० एस०-II—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन उपसर्वर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड-II के अधिकारी डा० रत्नाकर साहू को परीक्षा पर नियुक्त करके उन्हें 20-6-2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी में चिकित्सा के सहायक प्रोफेसर के पद पर तैनात करते हैं।

यू० सी० नांगिया, उप सचिव

दिनांक 19 अगस्त 2003

सं० ए०-12025/24/2000-सी० एच० एस०-IV—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० कृष्ण बिस्वास को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उपसर्वर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड-2 के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करके उन्हें 5 जून, 2002 के अपराह्न से आगामी आदेशों तक 10,000-15,200, रुपये के वेतनमान में सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में एन्डोक्राइनोलॉजिस्ट के पद पर तैनात करते हैं।

यू० सी० नांगिया, उपसचिव

सं० ए०-35014/17/2000-सी० एच० एस०-5—राष्ट्रपति, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड राँची की अधिकारी डा० (श्रीमती) मृदुला सिन्हा को दिनांक 20-1-2003 के पूर्वाह्न से आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत 10000-15200/ रुपये के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं। डा० (श्रीमती) मृदुला सिन्हा को इस तारीख से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना पटना के अधीन तैनात किया जाता है।

यू० सी० नांगिया, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 8 अगस्त 2003

सं० ए०-39012/7/02-सी एच एस-II—डा० डी० के० जायसवाल ने अपने त्यागपत्र के स्वीकार हो जाने के परिणाम-स्वरूप 25-10-2002 के अपराह्न को डाक विभाग (पी० एण्ड टी० औषधालय, वाराणसी) के अधीन केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

एन० के० सारवाल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 2003

सं० ए०-12025/480-ए/79-सी० एच० एस०-I—डा० ए० के० दावर के स्थायी आमेलन आधार पर ई०एस०आई० सी० में कार्यभार ग्रहण करने के लिए अपने तकनीकी त्यागपत्र के स्वीकार कर लिए जाने के परिणाम-स्वरूप दिनांक 30-10-1985 के अपराह्न को डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के अधीन केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया, समझा जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

संख्या ए-32012/2/03-सी०एच०एस०-1—केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य ड्यूटी उप-संग्रह के निम्नलिखित अधिकारियों ने वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर उनकी पदोन्नति के परिणामस्वरूप संबंधित संगठनों में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों की चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया :-

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	संगठन	चिकित्सा अधिकारी के पद से कार्यभार छोड़ने की तिथि	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1	2	3	4	5
1.	डा० सुगिता चौधरी विवाहपूर्व भसीन	सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	8-12-01 (पूर्वाह्न)	8-12-01 (पूर्वाह्न)
2.	ड० आर०के० छेजारा	-तदेव-	8-12-01 (पूर्वाह्न)	8-12-01 (पूर्वाह्न)
3.	डा० राजेश कुमारी	-तदेव-	8-12-01 (पूर्वाह्न)	8-12-01 (पूर्वाह्न)
4.	डा० संजय अम्बुज लाकडा	-तदेव-	8-12-01 (पूर्वाह्न)	8-12-01 (पूर्वाह्न)
5.	डा० तिवक राज सिंह	-तदेव-	8-12-01 (पूर्वाह्न)	8-12-01 (पूर्वाह्न)

जगदीश कुमार, अपर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 21-8-03

संख्या ए० 12025/72/2001-सी० एच० एस०-1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की फ़ारिशों पर डा० धर्मनंद सिंह को 11-2-2002 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-27.5-13,500/—रूपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० धर्मनंद सिंह को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अपर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 अगस्त 2003

सं० 27-2437/2003-स्था-1—राष्ट्रपति श्री बी० एस० मिन्हास, आई०ए०एस० (राजस्थान : 69) को 1 अगस्त, 2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग में विशेष सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

सरस्वती प्रसाद, निदेशक (कार्मिक)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(महिला एवं बाल विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 अगस्त 2003

सं० 4-11/2003-प्रशासन 1—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31-7-2003 के आदेश संख्या

7/3/2003-ई० ओ० (एस०एम०-1) के अनुपालनार्थ, सुश्री कस्तुरी गुप्ता मेनन, भा० प्र० से० (प० व० : 69) को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग में, 4 अगस्त, 2003 को अपराह्न से 26,000 रुपए नियत वेतनमान में सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम० एस० नेगी, अपर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त 2003

सं० ए-19011/5/2003-स्थापना—उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं० जी आई-520/वी आई-2003-28/1(33)/2001 दिनांक 14-8-2003 के अनुसरण में तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के विकल्प का चयन करने पर श्री एस० पी० आर्य, भा० प्र० से० (उत्तर प्रदेश : 68) सचिव (जनजातीय कार्य), भारतीय प्रशासनिक सेवा से 22-8-2003 के अपराह्न को सेवानिवृत्त हुए हैं।

सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, अपर सचिव

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूर संचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 17 जुलाई 2003

सं० ए-12026/1/90-प्रशासन-2—इस विभाग की दिनांक 2-11-2000 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में सक्षम प्राधिकारी, केन्द्रीय सचिवालय सेवा वर्ग 'क' अधिकारी श्री बी० के० कैलाश बाबू, को रुपए 12000-375-16500 के वेतनमान में, निदेशक (विभागीय परीक्षा), [जिसको भारत संचार

निगम लि टेड में संयुक्त उप महानिदेशक (विभागीय परीक्षा) के रूप में नामोददिष्ट किया गया] के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर मौजूदा शर्तों पर एक और वर्ष के लिए अर्थात् 1-02-2003 से 31-01-2004 तक अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, बने रहने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान करते हैं।

सतीश वधवा,  
अवर सचिव (प्रशासन-2)

दिनांक 21 अगस्त 2003

सं० ए-120 26/8/99-प्रशा०-2—इस विभाग की दिनांक 17-7-2003 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक आशोधन करते हुए “निदेशक (कल्याण एवं खेलकूद)” को “निदेशक (विभागीय परीक्षा)” प्रतिस्थापित किया जाता है।

सतीश वधवा,  
अवर सचिव (प्रशासन-2)

पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 अगस्त 2003

सं० एफ-6-13/2003-एम-I—विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के अनुसरण में, राष्ट्रपति, संग्रहालय शिक्षा अधिकारी, डॉ विजय कुमार माथुर को 4 अगस्त, 2003 (पूर्वाह्न) से 9,000-13,500/-रु० के वेतनमान में राष्ट्रीय संग्रहालय में उप संग्रहालय (प्राग-कोलम्बाई और पश्चिमी कला) के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं।

एम० सुब्बारायन, अवर सचिव

रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 2003

सं० ई आर बी-I/2003/2/58—श्री धीरेन्द्र कुमार को, 1-8-2003 के पूर्वाह्न से 16400-20000/- रु० के ग्रेड में निदेशक (मूद्रण), रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है।

आर०आर० भंडारी  
सचिव, रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 2003

सं० ई आर बी-I/2003/2/65—भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियर सेवा के अधिकारी, श्री आर० आर० भंडारी को, 4-8-2003 के पूर्वाह्न से 24050-26000/-रु० के वेतनमान में सचिव, रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है।

ए०के० बागची  
संयुक्त सचिव (राज)  
रेलवे बोर्ड

भ्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 2003

सं० ए-11016/7/2003-सीएलएस-II—राष्ट्रपति, श्री राम नगीना राय को केन्द्रीय सरकार औद्योगिक-न्यायाधिकरण-सह-भ्रम न्यायालय, दिल्ली-11 में 24-07-2003 की पूर्वाह्न से, अगले आदेश जारी होने तक पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

वाई० पी० सहगल  
अवर सचिव



## RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 19th August 2003

No. RS/6 (iv)/2003 27-Perl.—Shri Rajeev Lochan has been temporarily appointed as Senior Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 in the personal staff of Chairman, Committee on Petitions, Rajya Sabha w.e.f. the forenoon of the 26th June, 2003, until further orders.

2. The appointment of Shri Rajeev Lochan is at the discretion of the present Chairman, Committee on Petitions, Rajya Sabha and will be co-terminus with the term of his office.

P. R. GUHA ROY, Dy. Secy.

No. RS/6 (v)/2003 28-Perl.—Shri Paritosh Bhattacharya has been temporarily appointed as Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in the personal staff of the Chief Whip of the Bharatiya Janata Party in Rajya Sabha w.e.f. the forenoon of the 1st July, 2003, until further orders.

2. The appointment of Shri Paritosh Bhattacharya is at the discretion of the present Chief Whip of the Bharatiya Janata Party in the Rajya Sabha and will be co-terminus with the term of his office.

P. R. GUHA ROY, Dy. Secy.

No. RS/3 (ix)/2003 29-Perl.—In continuation of this Secretariat Notification No. RS/3 (ix)/2003 4-Perl. dated the 19th February, 2003, the Chairman, Rajya Sabha has been pleased to extend the term of deputation of Shri Surinder Kumar Verma, Controller of Printing and Publications in this Secretariat for a further period of six months with effect from the afternoon of the 20th August, 2003.

P. R. GUHA ROY, Dy. Secy.

## CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 14th August 2003

No. A-19012/2/2002-Ad. I.—Consequent upon her appointment as Joint Secretary in the Ministry of Youth Affairs and Sports vide Department of Personnel and Training's Order No. 10 15/2003 EO (SM I) dated 11th August, 2003 Smt. V. K. Jena, IAS (OR : 79), Joint Secretary, on compulsory wait in Cabinet Secretariat since 11th July, 2003 relinquished the charge of Joint Secretary with effect from the forenoon of 13th August, 2003.

SUNIL MISHRA, Dy. Secy.

The 19th August 2003

No. A-19014/4/2003-Ad. I.—The President is pleased to appoint Smt. A. Dhanaakshmi, CSS on her promotion to grade-I of the Central Secretariat Service on purely ad-hoc basis, as Under Secretary in the Cabinet Secretariat with effect from the forenoon of 18th August, 2003 for a period of seven years or until further orders.

SUNIL MISHRA, Dy. Secy.

## OFFICE OF THE PRINCIPAL SCIENTIFIC ADVISER

New Delhi-110011, the 21st August 2003

No. Prn SA/01 (01)/2003-Admn.—In pursuance of Department of Personnel and Training OM No. 31 10/2003-F2 (MM-I) dated 5-8-2003 the President is pleased to appoint Shri M. Raj, Grade I Officer of Central Secretariat Service as Under Secretary in the office of the Principal Scientific Adviser to the Govt. of India on transfer basis w.e.f. 19/8/2003 (F/N).

S. K. SIKKA, Scientific Secy.

## DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560094, the 18th August 2003

No. 12/2/1/2003-I.—Consequent on acceptance of his voluntary retirement, Shri K. R. Vibhu, Section Officer, Department of Space, has relinquished the charge of the post with effect from the forenoon of March 3, 2003.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 12/2/7/2003-I.—Consequent on acceptance of her voluntary retirement, Smt. Jayashri Krishna, Deputy Secretary, Department of Space, has relinquished the charge of the post with effect from the forenoon of August 6, 2003.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

## PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 4th August 2003

No. A-11013/57/2003-Adm. III.—The President is pleased to terminate coterminous appointment of Sh. Surender Pal, Steno. Grade 'D' of Ministry of Social Justice & Empowerment presently serving as First, P. A. in the personal staff of Minister of State for Planning, Statistics & Programme Implementation (Sh. S. B. Mookherjee) w.e.f. 04-08-2003 (F/N).

Sh. Surender Pal is directed to report to Under Secretary, Ministry of Social Justice & Empowerment with immediate effect.

S. A. RAHIM, Under Secy.

New Delhi, the 13th August 2003

No. A-12025/03/2001-Adm. II.—The President is pleased to appoint Ms. Roohi Siddiqui to the post of Senior Research Officer (Sociology/Social Planning) in the Planning Commission in a temporary capacity on regular promotion basis in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 with effect from the forenoon of 11-08-2003 and until further orders.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 19th August 2003

No. A-12025 (i)/2/2002-Admn.I (L.D.).—On the recommendation of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Smt. Sudha Rani Relangi to officiate as Assistant Legislative Counsel (Grade IV of Indian Legal Service) in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15200/- in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice with effect from the forenoon of 13th August 2003 and until further orders.

Smt. Sudha Rani Relangi will be on probation for a period of two years with effect from 13th August 2003.

M. DAS, Dy. Secy.

## VIDHI SAHITYA PRAKASHAN

New Delhi, the 21st July 2003

F.No. A-12026/1/2003-VSP (A).—In continuation of the Legislative Department, Vidhi Sahitya Prakashan's Notification of even number dated the 30th April, 2003 the President is pleased to extend the terms of ad-hoc appointment of Sh. H. S. Dwivedi, as Editor in the Vidhi Sahitya Prakashan of the said Deptt. for a period of 4 days i.e. w.e.f. the forenoon of the 28th July, 2003 to the 31st July, 2003 (afternoon), or till the post is filled up on regular basis whichever is earlier.

2. On the expiry of the above appointment Sh. H. S. Dwivedi shall stand retired from Govt. service on attaining the age of superannuation i.e. on the afternoon of the 31st July, 2003.

SURENDER KUMAR, Under Secy.

(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110 011, the 11th August 2003

No. K. 11017/2/2003-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice Bhawani Singh, Chief Justice of the Madhya Pradesh High Court, as the Chief Justice of the Gujarat High Court and to direct him to assume charge of the office of the Chief Justice of the Gujarat High Court on or before 26th August, 2003.

DURGADAS GUPTA, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 19th August 2003

No. A-32014/07/2002-Ad.I.—The President is pleased to continue the ad-hoc appointment of the following Senior Principal Private Secretaries working in the Ministry of Home Affairs for a further period upto 31-12-2003 or till regular Sr. PPSs become available or until further orders, whichever is earlier. The post of Sr. PPS is purely on ad-hoc in nature and shall not confer any right on them to continue in the posts indefinitely or to claim seniority in the grade of Sr. PPS of CSSS :—

S. No. Name of the Officer

S/Shri

1. K. K. Upadhyaya
2. K. L. Bajaj
3. Brij Mohan
4. P. Tahiliani

S. K. BHATNAGAR, Under Secy.

New Delhi, the 19th August 2003

No. I-18012/5/2003-IS-I.—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Police Service, the following members of the Indian Police Service, allocated to the Cadre of Jammu & Kashmir with effect from the dates indicated against each :—

Sl. No., Name of the officer & Date of confirmation in the IPS

(S/Shri)

1. Bashir Ahmad Dar—21-06-2001
2. Vijay Kumar Ghai—09-03-2002
3. Ajit Singh—09-03-2002
4. Hira Lal Fotedar—09-03-2002
5. Gulzar Singh—09-03-2002
6. Abdul Subhan Lone—09-03-2002
7. Sulaiman Salaria—09-03-2002
8. Sunil Kumar Sharma—09-03-2002
9. Munir Ahmad Khan—09-03-2002
10. Mrs. Manjoo Rashid—09-03-2002
11. Syed Ahmad Syed—09-03-2002

S. P. VERMA, Under Secy.

The 21st August 2003

No. I-18012/6/2001-IPS-I.—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Police Service, Shri R. P. Singh of Indian Police Service allocated to the Cadre of Madhya Pradesh with effect from 26-02-1994.

S. P. VERMA, Under Secy.

The 22nd August 2003

No. I-18012/9/2000-IPS-I.—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Police Service, Shri Devinder Singh of Indian Police Service allocated to the Cadre of Punjab with effect from 09-02-2000.

S. P. VERMA, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 18th August 2003

No. A. 20/G/977-Ad. I.—The President is pleased to extend the Central deputation tenure of Smt. Ganga Murthy, IES(78), as Director in the Department of Pensions & Pensioners Welfare for a period of one month beyond 19-8-2003 i.e. upto 19-9-2003 or until further orders, whichever is earlier.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

No. A.32013/9/2003-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Champak Chatterji, IAS (WB : 71), as Establishment Officer and Additional Secretary in the Department of Personnel & Training with effect from the forenoon of 13th August, 2003 until further orders.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

New Delhi-110067, the 21st August 2003

No. 13016/6/2002-Trg.I.—The President is pleased to appoint Shri Mukesh Chaturvedi, Deputy Director (RCP), Directorate General of Supplies & Disposals as Deputy Director (Vigilance Course) in the Institute of Secretariat Training and Management (ISTM), New Delhi, on deputation basis, for a period of 5 years with effect from the forenoon of 1st August 2003 or until further orders whichever is earlier.

MANISH BHATNAGAR, Desk Officer

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 5th August 2003

No. 69 : (F.No. A. 19013/16/2003-Ad-I).—The President of India is pleased to appoint Shri Pramod Kumar Rai, IC&CES as Under Secretary in the Central Board of Excise & Customs, Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 4-8-2003 (FN) and until further orders. He is posted as Under Secretary (Anti-Smuggling).

PREETI PANT, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 14th August 2003

No. A. 12011/15/01-Ad.I/2002.—In continuation of this deptt.'s notification of even number dated 11th February, 2003 the President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Shri Tapan Kumar Manna, Technologist, Government of India Press (PL Unit), Faridabad as Manager

(Press) in the Budget Press of this Department for a further period of six months w.e.f. 5-8-2003 in the scale of Rs. 10,000-15,200/- or till the post is filled up on regular basis whichever is earlier.

I. C. KAMBOJ, Under Secy.

#### (BANKING DIVISION)

##### DEBTS RECOVERY TRIBUNAL

Visakhapatnam-530016, the 6th June 2003

No. DRT/Admn./8/03-04/430.—Presiding Officer as the Head of the Department is pleased to appoint Sri C. Mohandas, Assistant, O/o Chief Engineer (SZ) II, Central Public Works Department, Hyderabad to the post of Section Officer (Group 'B'-Gazetted) in the Debts Recovery Tribunal, Visakhapatnam on deputation basis in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 26-5-2003 initially for a period of one year or until further orders, whichever is earlier.

S. S. S. SARMA,  
Assistant Registrar & Head of Office

#### (DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

New Delhi, the 19th August 2003

No. PFG(396)/80-AD.II.—On his transfer, Shri R. L. Saraswat, a Senior Time Scale (Accounts Branch) Officer of Indian Company Law Service relinquished charge of the post of Deputy Registrar of Companies in the Office of Registrar of Companies, Kolkata in the forenoon of 10-07-2003.

2. In exercise of powers conferred by sub-Section (1) (1-A) of Section 448 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government have appointed Shri R. L. Saraswat, a Senior Time Scale (Accounts Branch) Officer of Indian Company Law Service to officiate as Deputy Official Liquidator in the Office of Official Liquidator, High Court, Delhi with effect from the forenoon of 21-07-2003, until further orders.

RAVINDER DUTT, Under Secy.

No. PFG (538)/96-AD.II.—On his transfer, Shri S. Chandrasekaran, a Junior Time Scale (Accounts Branch) Officer of Indian Company Law Service relinquished charge of the post of Assistant Director (Inspection) in the Office of Regional Director, Chennai in the afternoon of 11-07-2003.

2. In exercise of the powers conferred by sub-Section (2) of Section 609 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government have appointed Shri S. Chandrasekaran, a Junior Time Scale (Accounts Branch) Officer of Indian Company Law Service to officiate as Assistant Registrar of Companies in the Office of Registrar of Companies, Coimbatore with effect from the forenoon of 14-07-2003, until further orders.

RAVINDER DUTT, Under Secy.

#### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

##### (DEPARTMENT OF COMMERCE)

##### (SUPPLY DIVISION)

New Delhi, the 19th August 2003

No. A-35020/1/2002-ES.I(Cadre).—The President is pleased to re-designate the post of Deputy Secretary held by Shri M. K. Anand, ICoAS (89) to that of Director w.e.f. 13th August, 2003 (FN) as a measure personal to him for the balance period of his tenure which would be upto 8th September, 2004 or until further orders, whichever event takes place earlier.

S. DAS, Under Secy.

#### (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION)

New Delhi-110011, the 11th August 2003

No. 8/52/2001-PP&C.—The President is pleased to appoint Dr. S. N. Maity, Scientist E-III of Central Mining Research Institute (Council of Scientific and Industrial Research) as Controller General of Patents, Designs and Trade Marks under the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) on deputation basis for a period of five years with effect from the forenoon of 29th July, 2003 or until further orders, whichever is earlier.

Y. P. VASHISHAT, Under Secy.

#### MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 21st July 2003

No. 5 (7)/2002-Estt.—Shri K. M. Mohiuddin, Section Officer in the CSS Cadre of the Ministry of Steel has retired under FR-56 K (i) w.e.f. 2-7-2003 (F/N).

T. V. A. RAM, Under Secy.

New Delhi, the 13th August 2003

No. 5 (4)/2000-Estt.—In continuation of Ministry of Steel Notification No. 2(5)/2000-Estt. dated 12-2-2001, the President is pleased to extend the tenure of Shri K. N. Mishra, Joint Director, Ministry of Defence [Office of the JS (Training) and CAO], currently on deputation to the post of Officer on Special Duty on the personal staff of Minister of State (Steel), from 2-6-2003 to 2-6-2004 or till his services are required by the Minister or till the Minister relinquishes the office of Minister of State (Steel) or until further orders whichever is the earliest.

BABOO RAM, Under Secy.

#### MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

##### (DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 18th August 2003

F. No. A-12011/10/2003-Estt.—The President is pleased to appoint Smt. Kusum Aggarwal, a regular P. A. of CSS Cadre of the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Consumer Affairs as Steno Grade "A&B" (merged) on purely adhoc basis with effect from 1-8-2003 for a period of six months or till a regular incumbent becomes available, whichever is earlier.

2. The above ad hoc appointment does not confer upon her any right or claim for regular appointment, seniority in the grade of Steno Grade "A&B" (merged).

S. K. NAYAK, Under Secy.

F. No. A-12011/15/98-Estt.—The President is pleased to appoint Smt. Priya Ajit Singh, IAS (HP : SCS :94) as Deputy Secretary in the Department of Consumer Affairs in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500 with effect from the forenoon of 11th August, 2003 for a period of four years or until further orders, whichever is earlier.

S. K. NAYAK, Under Secy.

New Delhi-110011, the 19th August 2003

No. A. 32013/2/2002-NTH (ESTT).—The President is pleased to appoint Shri G. C. Chattopadhyay, Scientific Officer (NDT) as Scientist SB (NDT) on promotion in National Test House, Kolkata in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500 with effect from the forenoon of 11-02-2003.

2. He will be on probation for a period of two years.

HARJINDER SINGH MALHI, Under Secy.

**MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE**  
(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi, the 14th August 2003

No. A. 12025/15/2001-CHS.IV.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Ajay Saraswat to the post of Specialist Grade-II of the Non-Teaching Specialist Sub-Cadre of Central Health Service on probation and to post him as Cardio Theracic Vascular Surgeon at Safdarjung Hospital, New Delhi in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200/- w.e.f. the forenoon of 22-4-2002 and until further orders.

U. C. NANGIA, Dy. Secy,

The 18th August 2003

No. A. 12025/6/2002-CHS.III.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Latika Sahu an officer of the Specialist Grade II of the Teaching Sub-cadre of the Central Health Service on probation and to post him as Assistant Professor of Obst. & Gynaecology as JIPMER Pondicherry w.e.f. forenoon of 18-6-2003 until further orders.

U. C. NANGIA, Dy. Secy,

No. A. 12025/33/2002-CHS.III.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Ratnakar Sahoo an officer of the Specialist Grade-II of the Teaching Sub-cadre of the Central Health Service on probation and to post him as Assistant Professor of Medicine on the forenoon of 20-6-2003 at JIPMER Pondicherry until further orders.

U. C. NANGIA, Dy. Secy,

The 19th August 2003

No. A. 12025/24/2000-CHS.IV.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Krishna Biswas to the post of Specialist Grade-II of the Non-Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service on probation and to post her as Endocrinologist at Safdarjung Hospital, New Delhi in the scale of pay Rs. 10,000—15,200/- w.e.f. the afternoon of 5th June, 2002 and until further orders.

U. C. NANGIA, Dy. Secy,

No. A. 35014/17/2000-CHS V.—The President is pleased to appoint Dr. (Smt.) Mridula Sinha an officer of the Central Coal Ltd., Gandhi Nagar, Ranchi to the post of Senior Medical Officer in the pay scale of Rs. 10,000—15,200/- in Central Health Service on deputation basis for a period of three years, w.e.f. the forenoon of 20-1-2003 until further orders. Dr. (Smt.) Mridula Sinha is posted in CGHS, Patna w.e.f. the same date.

U. C. NANGIA, Dy. Secy,

New Delhi, the 13th August 2003

No. A. 39012/7/02-CHS.II.—Consequent on the acceptance of his resignation Dr. D. K. Jaiswal, relinquished the charge of the post of Medical Officer of the Central Health Service under the Department of Posts (P&T Dispensary, Varanasi) on the afternoon of 25-10-02.

N. K. SARWAL, Under Secy.

New Delhi-110011, the 19th August 2003

No. A. 12025/480-A/79-CHS.I.—Consequent upon acceptance of his technical resignation, Dr. A. K. Dwivedi is deemed to have relinquished the charge of the post of Medical

Officer of Central Health Service under Dr. RML Hospital, New Delhi on the afternoon of 30-10-1985 to Join Employees State Insurance Corporation (ESIC) on permanent absorption basis.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A. 32012/2/2003-CHS. I.—Consequent on their promotion to the post of Senior Medical Officer, the following Officers belonging to the General Duty Medical Officer Sub-Cadre of the Central Health Service relinquished the charge of the post of Medical Officer and assumed the charge of the post of Senior Medical Officer on the dates indicated against their respective names in the concerned organizations as indicated below :—

Sl. No., Name of the Officer, Organisation, Date of Relinquishment of charge as MO & Date of assumption of charge as SMO

1. Dr. Sumitra Chaudhary nee Bhasin, Safdarjung Hospital, New Delhi, 8-12-01 (F/N)—8-12-01 (F/N)
2. Dr. R. K. Chejara, Safdarjung Hospital, New Delhi, 8-12-01 (F/N)—8-12-01 (F/N)
3. Dr. Rajesh Kumari, Safdarjung Hospital, New Delhi, 8-12-01 (F/N)—8-12-01 (F/N)
4. Dr. Sanjay Amboj Lakra, Safdarjung Hospital, New Delhi, 8-12-01 (F/N)—8-12-01 (F/N)
5. Dr. Tilak Raj Singh, Safdarjung Hospital, New Delhi, 8-12-01 (F/N)—8-12-01 (F/N)

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 21st August 2003

No. A. 12025/72/2001-CHS. I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Dharmender Singh to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- in a temporary capacity with effect from forenoon of 11-02-2002 until further orders. Dr. Dharmender Singh is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

**MINISTRY OF AGRICULTURE**

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 4th August 2003

No. 27-2437/2003-E.I.—The President is pleased to appoint Shri B. S. Minhas, IAS (RJ : 69), as Special Secretary in the Department of Agriculture & Cooperation with effect from the forenoon of 1st August, 2003 until further orders.

SARASWATI PRASAD, Director (Pers.)

**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**

(DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT)

New Delhi, the 5th August 2003

No. 4-11/2003-Admn.—The President is pleased to appoint Ms. Kasturi Gupta Menon, IAS (WB : 69), as Secretary, Department of Women and Child Development, Ministry of Human Resource Development in the scale of pay of Rs. 26000/- fixed with effect from the afternoon of August 4, 2003, in pursuance of DOPT's order No. 7/3/2003-EO (SM. I) dated 31st July, 2003.

M. S. NEGI, Under Secy.

## MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 22nd August 2003

No. A-19011/5/2003-Estt.—In pursuance of Govt. of Uttar Pradesh Notification No. G1-520/VI-2003-28/1(33)/2001 dt. 14-8-2003 and on opting for voluntary retirement. Sh. S. P. Arya, IAS (U.P : 68). Secretary (TA) has retired w.e.f. the afternoon of 22-8-2003 from Indian Administrative Service.

S. K. GUPTA, Under Secy.

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS &amp; INFORMATION TECHNOLOGY

## (DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 17th July 2003

No. A-12026/8/98-Admn. II.—In continuation of this Department's notification of even number dated 2-11-2000, the competent authority hereby permits Shri P. K. Kailasha Babu, a CSS Grade officer, to continue as Director (Welfare & Sports), a GCS Group 'A' post [presently designated as Joint Dy. Director General (Departmental Examination) in Bharat Sanchar Nigam Ltd.], in the pay scale of Rs. 12000-375-16500 on deputation basis for a further period of one year i.e. from 1-02-2003 to 31-01-2004, or till further orders, whichever is earlier on the existing terms & conditions.

SATISH WADHWA, Under Secy. (Admn)II.

The 21st August 2003

No. A-12026/8/99-Admn. II.—In partial modification of this Department's notification of even number dated 17th July, 2003 the words "Director (Welfare & Sports)" be replaced with "Director (Departmental Examination)".

SATISH WADHWA, Under Secy. (Admn)II.

## MINISTRY OF TOURISM &amp; CULTURE

## (DEPARTMENT OF CULTURE)

New Delhi, the 13th August 2003

No. F. 6-13/2003-M.I.—In pursuance of the recommendation of Department Promotion Committee (DPC), the Presi-

dent is pleased to appoint Dr. Vijay Kumar Mathur, Museum Education Officer to officiate as Deputy Curator (Pre-Columbian and Western Art) in National Museum in the pay scale of Rs. 8000—13,500/- with effect from August 04, 2003 (Forenoon).

M. SUBBARAYAN, Under Secy.

## MINISTRY OF RAILWAYS

## (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 19th August 2003

No. ERB-I/2003/2/58.—Shri Dharendra Kumar, is appointed to Grade Rs. 16400—20000/- as Director (Printing), Railway Board with effect from the forenoon of 01-08-03.

R. R. BHANDARI, Secy., Railway Board

New Delhi, the 19th August 2003

No. ERB-I/2003/2/65.—Shri R. R. Bhandari, an officer of Indian Railway Service of Mechanical Engineer, is appointed as Secretary Railway Board, in scale Rs. 24050—26000/-, with effect from the forenoon of 04-08-2003.

A. K. BAGCHI, Jt. Secy. (G)  
Railway Board

## MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 24th July 2003

No. A-11016/7/2003-CLS-II.—The President is pleased to appoint Sh. Ram Nagina Rai as Presiding Officer Central Govt. Industrial Tribunal-Cum-Labour Court, Delhi-II w.e.f. 24-07-2003 (F/N) till further orders.

Y. P. SEHGAL, Under Secy.

प्रकाशक, भारत सरकार मन्त्रालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
उक्त प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2003

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,  
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2003